

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई 2015—श्रावण 8, शक 1937

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2014

इन्दौर, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्र. 772-09-2013-प.-8.—आयोग की अधिसूचना क्रमांक-533-09-2013-प.-8, दिनांक 3 जुलाई 2015 को अधिक्रमित करते हुए आयोग की बैठक दिनांक 10 जुलाई 2015 में हुए निर्णय अनुसार संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है।

परीक्षा योजना:-

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार कुल 06 प्रश्नपत्र होंगे तथा सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है :—

स.क्र.	विषय	अवधि	पूर्णांक	माध्यम
प्रथम प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन—I	03 घण्टे	300	हिन्दी तथा अंग्रेजी
द्वितीय प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन—II	03 घण्टे	300	हिन्दी तथा अंग्रेजी
तृतीय प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन—III	03 घण्टे	300	हिन्दी तथा अंग्रेजी
चतुर्थ प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन—IV	03 घण्टे	200	हिन्दी तथा अंग्रेजी
पंचम प्रश्नपत्र	सामान्य हिन्दी	03 घण्टे	200	हिन्दी
षष्ठम प्रश्नपत्र	निबंध एवं अपठित गद्यांश	02 घण्टे	100	हिन्दी

साक्षात्कार :—

175 अंक

कुल अंक

1575

परीक्षा के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या, प्रैश्नों का प्रकार तथा उत्तर हेतु शब्द सीमा का मार्गदर्शी प्रारूप निम्नानुसार हैः—

1. सामान्य ज्ञान के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र में दो खण्ड अ तथा ब रहेंगे। प्रत्येक खण्ड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खण्ड के लिये पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी। प्रत्येक खण्ड में 15 अतिलघुउत्तर 10 लघुउत्तर एवं 03 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या में आवशकतानुसार कम या अधिक की जा सकेगी।
2. चतुर्थ प्रश्न पत्र में एक ही खण्ड रहेगा तथा प्रश्न पत्र में 15 लघुस्तरीय तथा 15 लघुस्तरीय संक्षिप्त टिप्पणियां सम्मिलित रहेगी तथा एक या दो केस स्टडी से संबंधित लघुरूप के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. सामान्य ज्ञान के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में प्रदान किये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम में से एक भाषा में उत्तर लिखने का विकल्प का चयन किया जा सकता है।

प्रथम प्रश्नपत्र खण्ड (अ)

प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक—1.1 से 1.7 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

प्रश्न क्रमांक—01

इस प्रश्न में कुल— A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा। अनुमानित प्रत्येक प्रश्न पत्र के शब्द सीमा 15 होगी। आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक—02

इस प्रश्न में कुल— A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के रहेंगे जिनका उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

प्रश्न क्रमांक—03

A, B, एवं C कुल—03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल — $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

खण्ड (ब)

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी।

प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक-2.1 से 4.3 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

प्रश्न क्रमांक-01

इस प्रश्न में कुल—A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनक उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा। आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक-02

इस प्रश्न में कुल—A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

प्रश्न क्रमांक-03

A, B, एवं C कुल—03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

द्वितीय प्रश्न पत्र

प्रश्न पत्र द्वितीय, दो खण्डों में विभाजित होगा। प्रत्येक खण्ड के लिए पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी।

खण्ड (अ)

द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में 1.1 से 3.11 तथा क्रमांक—08, 09 एवं 10 भाग इसमें सम्मिलित रहेगा।

प्रश्न क्रमांक-01

इस प्रश्न में कुल—A से O तक तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा। आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक-02

इस प्रश्न में कुल—A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

प्रश्न क्रमांक-03

A, B. एवं C कुल-03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल- $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

खण्ड (ब)

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी।

द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक-4.1 से 10.4 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

प्रश्न क्रमांक-01

इस प्रश्न में कुल- A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल- $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक-02

इस प्रश्न में कुल- A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल- $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

प्रश्न क्रमांक-03

A, B. एवं C कुल-03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल- $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

तृतीय प्रश्नपत्र

प्रश्न पत्र तृतीय, दो खण्डों में विभाजित होगा। प्रत्येक खण्ड के लिए पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी।

तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक-1.1 से 6.6 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

खण्ड—(अ)

प्रश्न क्रमांक—01

इस प्रश्न में कुल— A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक—02

इस प्रश्न में कुल— A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जायेगा।

प्रश्न क्रमांक—03

A, B, एवं C कुल—03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

खण्ड (ब)

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तरपुस्तिका प्रदान की जायेगी। तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक — 7.1 से 7.17 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :—

प्रश्न क्रमांक—01

इस प्रश्न में कुल— A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक-02

इस प्रश्न में कुल— A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्ने कुल— $10 \times 6 = 60$ अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

प्रश्न क्रमांक-03

A, B. एवं C कुल—03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। इस खण्ड में केस स्टडीज से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित किया जा सकता है।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

चतुर्थ प्रश्न पत्र

इस प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न अति लघुस्तरीय होगा। जिनके उत्तर या एक या दो पंक्तियों में देना होंगे। आंतरिक विकल्प नहीं दिया जायेगा। यह प्रश्न कुल— $15 \times 3 = 45$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक—02 से 16 तक कुल—15 प्रश्न लघुस्तरीय टिप्पणी के होंगे जिनकी शब्द सीमा लगभग—150 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल— $15 \times 6 = 90$ अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक—17 तथा 18 में पाठ्यक्रम से संबंधित 01 या 02 केस स्टडी दी जायेगी कुल केस स्टडी के आधार पर कुल 65 अंकों के लघुस्वरूप के प्रश्न पूछे जायेंगे। दो केस स्टडी सम्मिलित किये जाने पर प्रथम केस स्टडी से 30 अंक के द्वितीय केस स्टडी से 35 अंक के प्रश्न पूछे जायेंगे।

पंचम प्रश्न पत्र

पांचवा प्रश्नपत्र— यह प्रश्न पत्र सामान्य हिन्दी का होगा, पहला प्रश्न लघु स्तरीय होगा जिसमें कुल-20 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 01 या 02 अंकितयों में देना होगा तथा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार पहला प्रश्न $20 \times 3 = 60$ अंकों को होगा।

प्रश्न क्रमांक-02 गद्यांश के हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का होगा। यह प्रश्न 20 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक-03 से 10 तक कुल 08 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया जायेगा।

इस प्रकार यह प्रश्न 200 अंकों को होगा।

छठवां प्रश्न पत्र

छठवां प्रश्नपत्र— यह प्रश्न पत्र निबंध एवं अपठित गद्यांश का होगा प्रश्नपत्र 03 खण्डों में विभाजित रहेगा प्रत्येक खण्ड में आंतरिक विकल्प रहेगा। प्रथम खण्ड अपठित गद्यांश का होगा जिसमें प्रश्नपत्र में हिन्दी भाषा में दिये गये गद्यांश से संबंधित 02-02 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जायेंगे इस प्रकार यह खण्ड 20 अंकों का होगा।

द्वितीय खण्ड ब में हिन्दी भाषा में 500 शब्दों में निबंध लिखना होगा यह खण्ड 30 अंकों का होगा। खण्ड 'स' हिन्दी भाषा में लगभग 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा यह 50 अंकों का होगा।

टीप— अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

संलग्न-06 प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम।

आदेशानुसार,
मनोहर दुबे, सचिव।

प्रश्न पत्र— | सामान्य अध्ययन पेपर—(।)

1 इतिहास एवं संस्कृति

1.1 विश्व इतिहास –

पुनर्जागरण,

इंग्लैंड की क्रांति,

फ्रांस की क्रांति,

ओहोगिक क्रांति

रूसी क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध

1.2 भारतीय इतिहास—भारत का राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास, हड्ड्या सम्यता से 10 वीं शताब्दी तक।

1.3 मुगल और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का उद्भव।

11 वीं से 18 वीं शताब्दी तक मध्यभारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास।

1.4 ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव।

ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया : कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन / संग्राम।

1.5 भारतीय पुनर्जागरण : राष्ट्रीय, स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में)।

1.6 गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्यप्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के प्रमुख घटनाक्रम।

1.7 मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक विरासत : प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व (उत्सवों), वास्तुकला के प्रमुख पक्ष।

भारत में विश्व धरोहर रथल, मध्यप्रदेश में पर्यटन।

२/ भूगोल –

- 2.1 भारत एवं विश्व भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएँ/लक्षण ।
- 2.2 प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण,
मध्यप्रदेश के कृषि-जलवायु क्षेत्र एवं उद्योग ।
- 2.3 भारत एवं मध्यप्रदेश की जनांकिकी, मध्यप्रदेश की जनजातियां, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में ।
- 2.4 कृषि पारिस्थितिकी एवं मनुष्य के लिये इसकी प्रासंगिकता, धारणीय प्रबंधन एवं संरक्षण । राज्य की प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल चक्र, फसलों के उत्पादन और वितरण का भौतिक और सामाजिक पर्यावरण । राज्य में बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति, कृषि के तरीके, बागवानी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशु पालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएँ, कृषि उत्पादन, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन आदि से संबंधित समस्याएँ एवं चुनौतियाँ ।

मृदा : मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा निर्माण की प्रक्रिया एवं मृदा के खनिज एवं कार्बनिक तत्व तथा भूमि की उत्पादकता बनाये रखने में इनका योगदान । मृदा एवं वनस्पति में आवश्यक वनस्पति पौष्टक और विभिन्न लाभदायक तत्व । समस्याग्रस्त मृदा और उसके परिष्कार के तरीके, मध्यप्रदेश में मृदा क्षरण और हृस की समस्याएँ। जलग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन ।

- 2.5 भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग – संभावनाएँ एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएँ, मांग पूर्ति शृंखला प्रबंधन ।

भारत में भूमि सुधार ।

३ जल प्रबंधन –

- 3.1 भू-जल एवं जल संग्रहण प्रबंधन ।
- 3.2 जल का उपयोग एवं कुशल सिंचाई प्रणाली ।
- 3.3 पेयजल – आपूर्ति, जल की अशुद्धता के कारक एवं गुणवत्ता का प्रबंधन ।

४/ आपदा एवं आपदा प्रबंधन –

- 4.1 मानव निर्मित एवं प्राकृतिक आपदाएँ : आपदा प्रबंधन की अवधारणाएँ एवं विस्तार की संभावनाएँ, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन ।
- 4.2 सामुदायिक योजना : संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता ।
- 4.3 केस रस्टडी (प्रकरण अध्ययन) – चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी 1986, भोपाल गैस त्रासदी 1984, कच्छ भूकंप 2001, भारतीय सुनामी 2004, फुकुसिमा डायची जापान परमाणु आपदा 2011, उत्तराखण्ड बाढ़ 2013, उज्जैन त्रासदी 1994, इलाहाबाद कुंभ की भगदड़ 2013, जम्मू एवं कश्मीर की बाढ़ 2014 आदि का अध्ययन ।

प्रश्न पत्र – ॥ सामान्य अध्ययन पेपर (॥)

1. संविधान, शासन की राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरचना –

- 1.1 संविधान निर्माण समिति, भारत का संविधान, प्रस्तावना, बुनियादी संरचना, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, संविधान की अनुसूचियाँ, संवैधानिक संशोधन, भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधानों के साथ तुलना ।
- 1.2 केन्द्र एवं राज्य विधायिका ।
- 1.3 केन्द्र एवं राज्य कार्यपालिका ।
- 1.4 न्यायपालिका – सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, न्यायपालिका की अवमानना ।
- 1.5 भारतीय संघ की प्रकृति, केन्द्र एवं राज्यों के संबंध, शक्तियों का विभाजन (केन्द्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) संसाधनों का वितरण ।
- 1.6 विकेन्द्रीकरण एवं लोकतांत्रिक शासन में जनभागीदारी, स्थानीय शासन, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन, पंचायतें, नगर पालिकाएँ (ग्रामीण एवं नगरीय, स्थानीय शासन)
- 1.7 लोकपाल, लोकायुक्त एवं लोक न्यायालय— न्यायपालिका— संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण एवं प्रहरी के रूप में – न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका ।
- 1.8 जवाबदेही एवं अधिकार—प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता न्यायालय, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अजा/अजजा/अपिव आयोग एवं अन्य निवारण संस्थाएँ/प्राधिकरण । पारदर्शिता एवं जवाबदेही, सूचना का अधिकार, सेवा प्राप्ति का अधिकार, सार्वजनिक निधि का उपयोग ।
- 1.9 लोकतंत्र की कार्य प्रणाली :
राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी ।
- 1.10 निर्वाचन,
निर्वाचन आयोग, निर्वाचन संबंधी सुधार ।
- 1.11 समुदाय आधारित संगठन (CBOS) एवं गैर सरकारी संगठनों (NGOS) का उद्भव – स्व-सहायता समूह ।

- ✓ 1.12 मीडिया की भूमिका एवं समस्याएँ (इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट एवं सामाजिक)
2. बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा के मुददे।
3. सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान :
- 3.1 भारतीय समाज, सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान।
- 3.2 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- 3.3 भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा (सीआरपीसी)
- 3.4 घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम—2005
- 3.5 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
- 3.6 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
- 3.7 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- 3.8 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986
- 3.9 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
- 3.10 सूचना प्रादौगिकी अधिनियम—2000
- 3.11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- 3.12 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम—2010
4. सामाजिक क्षेत्र – स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण –
- 4.1 स्वास्थ्य सेवायें – भारत/मध्यप्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के संदर्भ में निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
सभी के लिए उपचारात्मक स्वास्थ्य की उपलब्धता से संबंधित समस्याएँ।
चिकित्सकों एवं चिकित्सा सहायकों (पैरामेडिकल टेक्निक्स) की उपलब्धता,
ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवायें।
- 4.2 कुपोषण – कारण और प्रभाव एवं पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम।
- 4.3 प्रतिरक्षा शास्त्र के क्षेत्र में तकनीकी दखल – प्रतिरक्षण, पारिवारिक स्वास्थ्य,
बायोटेक्नोलॉजी, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां एवं उनके उपचार।

4.4 जन्म—मृत्यु समंक (वायटल स्टेटिस्टिक्स) ।

4.5 विश्व स्वास्थ्य संगठन— उददेश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम ।

5. शिक्षण प्रणाली—

मानव संसाधन विकास में शिक्षा —एक साधन, सार्वभौमिक/समान प्रारम्भिक शिक्षा, उच्चशिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, वंचित वर्ग, निःशक्त जन से संबंधित मुद्दे।

6. मानव संसाधन विकास :—

कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन (ट्रेंड्स), विभिन्न संस्थाओं जैसे —एन.सी.एच.ई.आर., एन.सी.ई.आर.टी., एन.आई.ई.पी.ए., यू.जी.सी., ओपन विश्व विद्यालय, ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई., एन.सी.व्ही.टी., आई.सी.ए.आर., आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. एन.एल.यू.एस. पोलीटेक्नीक एवं आई.टी.आई, आदि की भूमिका एवं मानव संसाधन विकास ।

7. कल्याणकारी कार्यक्रम—

वृद्धजन, निःशक्त जन, बच्चों, महिलाओं, श्रम, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग एवं विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्गों से संबंधित मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम ।

8. लोक सेवाएं :—

लोकसेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय सेवायें, राज्य सेवाएं, संवैधानिक पद— भूमिका, कार्य और कार्य की प्रवृत्ति; संघ लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग। शासन के बदलते प्रारूप के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थायें ।

9. लोक व्यय एवं लेखा—

लोकव्यय पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, प्रावक्कलन समिति, लोकलेखा समिति आदि । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, मौद्रिक एवं वित्तीय नीति में वित्त मंत्रालय की भूमिका, मध्यप्रदेश के महालेखाकार का गठन एवं कार्य ।

10. अंतर्राष्ट्रीय संगठन

10.1. संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन ।

10.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक ।

10.3 सार्क, ब्रिक्स, अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह ।

10.4 विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव ।

सामान्य अध्ययन पेपर-111

विज्ञान एवं तकनीकी :—

1 विज्ञान

- 1.1 हमारे आस-पास व्याप्त पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातुएँ और अधातुएँ, कार्बन और इसके यौगिक, अणु, परमाणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएँ, अम्ल, क्षार एवं लवण ।
- 1.2 जीव, जीवों के प्रकार, ऊतक, जीवन की इकाई, कोशिका, जैविक क्रियाएँ, चयापचय, नियंत्रण और सामंजस्य, प्रजनन, आनुवांशिकी एवं जैव विकास ।
- 1.3 गुरुत्वाकर्षण, गति, बल, गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत एवं चुम्बकत्व ।

2. तर्क एवं आंकड़ों की व्याख्या :—

- 2.1 आधार संख्याएँ और संख्यिकी (अंक और उनके संबंध) संभाविता
- 2.2 आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या (चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी, पर्याप्ता आदि)
- 2.3 अनुपात और समानुपात, इकाई विधि, लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चकवर्ती ब्याज ।
- 2.4 क्षेत्रविधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन ।
- 2.5 तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समर्स्या समाधान ।

3. तकनीकी :—

- 3.1 विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग, देशज तकनीकी, तकनीकी हस्तान्तरण और नवीन तकनीकी का विकास ।
- 3.2 पेटेन्ट और बौद्धिक सम्पदा के अधिकार (ट्रिप्स, ट्रिम्स)
- 3.3 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान ।

4. विकासशील तकनीकी :—

- 4.1 नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष जी आय एस, जी पी एस, जैव प्रौद्योगिकी, नेनो तकनीकी, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्र, स्वास्थ्य, ई-गर्वनेन्स, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीड़ा आदि में इनके अनुप्रयोग ।

5/ ऊर्जा :—

- 5.1 परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन ।
- 5.2 ऊर्जा प्रबंधन : मुद्दे और चुनौतियाँ ।
- 5.3 वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ ।
6. पर्यावरण एवं धारणीय विकास
- 6.1 पर्यावरणीय क्षरण : कारण, प्रभाव एवं निदान ।
- 6.2 पर्यावरण संरक्षण विधियाँ, नीतियाँ और नियामक ढाँचा ।
- 6.3 पर्यावरण एवं विकास पर चर्चा ।
- 6.4 ठोस, तरल, अपशिष्ट, जल—मल, हानिकारक चिकित्सा अवशिष्ट एवं ई—वेर्स्ट का प्रबंधन ।
- 6.5 जलवायु परिवर्तन : कारण और निदानात्मक उपाय ।
- 6.6 पर्यावरणीय छाप और इससे निपटने की रणनीतियाँ ।

7 भारतीय अर्थव्यवस्था —

- 7.1 भारत में विकास का अनुभव ।
- 7.2 मध्यप्रदेश में मन्द औद्योगिक विकास के कारण ।
- 7.3 1991 के बाद से हुए आर्थिक सुधार : औद्योगिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, स्टॉक बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली ।
- 7.4 उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण ।
- 7.5 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ ।
- 7.6 भारत में विकास का नियोजन ।
- 7.7 राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन की प्रणाली ।
- 7.8 आधारभूत अधोसंरचना विकास एवं मुद्दे ।
- 7.9 गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रिय असंतुलन एवं प्रवजन ।
- 7.10 नगरीय क्षेत्र के मुद्दे— नगरीय विकास के मुद्दे (सामाजिक एवं आर्थिक संरचना)

- ✓ एवं निम्न आय वर्गीय समूह के लिये आवास ।
- 7.11 ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे, ग्रामीण विकास (सामाजिक एवं आर्थिक संरचना) एवं ग्रामीण साख ।
- 7.12 विकास का सूचकांक, मानव विकास एवं आर्थिक विकास ।
- 7.13 भारत और मध्यप्रदेश में सहकारिता आन्दोलन ।
- 7.14 मध्यप्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता ।
- 7.15 आर्थिक विकास के तत्व ।
- 7.16 कृषि क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सीडी के मुद्दे ।
- 7.17 लोक वितरण प्रणाली : उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमायें, खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक से संबंधित मुद्दे ।

सामान्य अध्ययन पेपर—IV

1. मानवीय आवश्कताएँ एवं अभिप्रेरणा :

लोक प्रशासन में नैतिक सदगुण एवं मूल्य : प्रशासन में नैतिक तत्व—सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अन्तरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन ।

2. दार्शनिक / विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता / सुधारक :— महावीर, बुद्ध, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तू, गुरुनानक, कबीर, तुलसीदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, खामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविन्दो, मोहनदास करमचंद गाँधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव रामजी अस्वेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया आदि ।
3. मनोवृत्ति : विषयवस्तु, तत्व, प्रकार्य : मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक सप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रुद्धिवादिता ।
4. अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएँ, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना / करुणा ।
5. संवेदिक बुद्धि : अवधारणा, प्रशासन / शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग ।
6. भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचनातंत्र, परिवार एवं विसलब्लॉअर (Whistleblower) की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा (रवैया), भ्रष्टाचार का मापन, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता आदि ।
7. पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयवस्तु पर आधारित प्रकरणों का अध्ययन ।

पंचम प्रश्नपत्र

सामान्य हिन्दी

इस प्रश्नपत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने, समझने और लेखन की योग्यता एवं हिन्दी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की जाँच करना है।

सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे जायेंगे

(क) पल्लवन, सन्धि व समाज

- (1) दिये गए वाक्यों का व्यापक अर्थ (शब्द—सीमा 50 शब्द)
- (2) सन्धि, समास व विराम चिन्ह

(ख) संक्षेपण

(ग) प्रारूप लेखन — शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक (स्मरण पत्र), आधिसूचना, टिप्पण लेखन — (कोई दो)

(घ) प्रयोग, शब्दावली तथा प्रारंभिक व्याकरण

- (1) प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली (हिन्दी व अंग्रेजी)
- (2) मुहावरे अथवा कहावतें
- (3) विलोम शब्द एवं समानार्थी शब्द
- (4) तत्सम—तदभव शब्द
- (5) पर्यायवाची शब्द
- (6) शब्द युग्म

(ङ) (1) निबंध लेखन (300 शब्द)

- (2) प्रतिवेदन — (प्रशासनिक, विधि, पत्रकारिता, साहित्य व सामाजिक)

(च) अनुवाद (वाक्यों का)

हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी

षष्ठम प्रश्नपत्र— निबंध लेखन

1.	प्रथम निबंध (लगभग 1000 शब्दों में)	:	अंक — 50
2.	द्वितीय निबंध (लगभग 250 शब्दों में)	:	अंक — 30
3.	अपठित गद्यांश	:	अंक — 20

योग—

अंक— 100

PAPER I -GENERAL STUDIES -(I)

1. HISTORY AND CULTURE

- 1.1 World History –
Renaissance,
Revolution of England,
French Revolution,
Industrial Revolution
Russian Revolution.
World War I and II .
- 1.2 Indian History -
Political, Economical and Social history of India from Harappa civilization to 10th Century A.D.
- 1.3 Moguls and their administration, emergence of composite culture, Political, Economical and Social history of Central India from 11th to 18th Century A.D.
- 1.4 Impact of British Rule on Indian economy and society,
Indian response to British Rule : Peasant and tribal revolts,
The First Struggle of Independence.
- 1.5 Indian ‘Renaissance: The Freedom, National Movement and its leaders (with special reference to M.P.).
- 1.6 Emergence of India as a Republic, Reorganization of States, Formation of M.P.
Major events of the post independence period.
- 1.7 Indian Culture, Heritage with special reference to M.P. : Salient aspects of Art Forms, Literature, Festivals & Architecture from ancient to modern times.
World Heritage sites in India, Tourism in Madhya Pradesh.

2. GEOGRAPHY

- 2.1 Salient features of physical geography of India and the world,
- 2.2 Distribution of key natural resources,
Agro-climatic zones and
Industries in M.P.
- 2.3 Demography of India and M.P., Tribes of Madhya Pradesh with particular reference to vulnerable tribes.

2.4 Agro ecology and its relevance to man, sustainable management and conservation. Major crops of the state, holdings and cropping patterns, physical and social environment of crop distribution and production. Issues and challenges related with quality and supply of seed, manure, farming practices, horticulture, poultry, dairy, fisheries and animal husbandry etc. agriculture produce, transport, storage and marketing in the state.

Soil : Physical, chemical and biological properties, Soil process and factors of soil formation, mineral and organic constituents of soil and their role in maintaining soil productivity. Essential plant nutrients and other beneficial elements in soils and plants. Problem soils and their reclamation methods. Problems of soil erosion and Soil degradation in Madhya Pradesh. Soil conservation planning on watershed basis.

2.5 Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management. Land reforms in India.

3. Water Management

- 3.1 Ground water and Watershed management.
- 3.2 Water usage and efficient irrigation systems.
- 3.3 Drinking Water: supply, factors of impurity of water and quality management.

4. Disaster and its management

- 4.1 Man-made and Natural disasters: Concept and scope of disaster management, specific hazards and mitigation.
- 4.2 Community planning: Resource Mapping, Relief & Rehabilitation, preventive and administrative measures, Safe construction, Alternative communication and survival skills.
- 4.3 Case studies - Chernobyl Atomic Plant Tragedy 1986, Bhopal Gas Tragedy 1984, Kutch Earthquake 2001, Indian Tsunami 2004, Fukushima Daiichi Japan Nuclear Disaster 2011, Uttrakhand Flash Flood 2013, Ujjain Tragedy 1994, Allahabad Kumbh Stampede 2013, J & K Flood 2014 etc.

PAPER II -GENERAL STUDIES -(II)

1. The Constitution, the Political and Administrative Structure of Governance.

- 1.1 Constitution drafting committee, The Constitution of India, The Preamble, Basic Structure, Fundamental Rights and Duties and Directive principles of state policy, Schedules of the Constitution, Constitutional amendments. Comparison of the Indian Constitution with that of other countries.
- 1.2 Centre and State Legislature.
- 1.3 Centre and State Executive.
- 1.4 Judiciary - Supreme Court, High Court, District and Subordinate Courts. Contempt of Court.
- 1.5 Nature of the Indian Union, Centre-State Relations, Division of Power (Union List, State List and Concurrent List). Distribution of resources.
- 1.6 Decentralization and peoples participation in Democratic Governance. Self Government, 73rd and 74th amendment of Constitution. The Panchayats, The Municipalities. (Rural and Urban Local Governance)
- 1.7 Lokpal, Lokayukt and Lok Nyayalaya -Judiciary as a watch-dog protecting Constitutional Order- Judicial Activism, Public Interest Litigation.
- 1.8 Accountability and Rights :-
Competition Commission, Consumer Courts, Information Commission, Lokayukt Commission, Human Rights Commissions, SC/ ST/OBC Commission; redressed agencies / authorities. Transparency and Accountability, Right to Information, Right to Services, Utilization of public funds.
- 1.9 Democracy at work,
Political Parties, Political Representation, Citizens Participation in Decision Making.
- 1.10 Elections,
Election Commission, Electoral reforms.
- 1.11 Emergence of Community Based Organizations (CBOs) and Government Organizations (NGOs);
Self Help Groups.
- 1.12 Issues and role of media (Electronic, Print and Social)

2. Security issues: External and Internal.

3. Social & Some Important Legislation:

- 3.1 Indian society, Social Legislation as an instrument of Social Change.
- 3.2 The Protection of Human Rights Act, 1993

- 3.3 Protection to Women Women & Criminal Law [Under Indian Constitution Law & criminal Procedure code]
- 3.4 Protection of Women From Domestic Violence Act-2005
- 3.5 The Protection of Civil Rights Act, 1955,
- 3.6 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989,
- 3.7 Right to Information Act, 2005,
- 3.8 Environment (Protection) Act, 1986,
- 3.9 The Consumer Protection Act, 1986,
- 3.10 Information Technology Act, 2000,
- 3.11 The Prevention of Corruption Act, 1988
- 3.12 The Madhya Pradesh Lok Sewaon ke Pradan ki Guarantee Adhiniyam-2010

4- Social Sector - Health, Education & Empowerment -

- 4.1 Health services, Preventive and curative health programmes in India , with an emphasis on children and women's health.
Issues related to availability of curative health to all. Availability of doctor & Paramedical staff. Health services in rural area.
- 4.2 Malnutrition, its causes and effects and Govt. programmes for supplem Nutrition
- 4.3 The technological interventions in the field of Immunology, Immuniz Family health, Biotechnology, Communicable and non-commun diseases and remedies.
- 4.4 Vital statistics
- 4.5 W.H.O.-Objectives, Structures, functions and its programmes.

5- Education systems -

Education as a tool of HR development, Universal elementary education, Quality of Higher and Technical, Vocational Education. Issues related to girls education, under privileged classes and differently abled classes.

6- Human resource development -

Availability of skilled manpower, employability and productivity of human resource of India, trends of employment, role of institutions like NCHER, NCERT, NIEPA, UGC, Open Universities, AICTE, NCTE, NCVT, ICAR, IITs, NITs, NLUs, IIMs, Polytechnic and ITIs etc. and human resource development.

7- Welfare programmes -

Welfare programmes and Issues related to - Aged people, Differently able people, Children, Women, Labour, Socially deprived Classes and Displaced groups of developmental projects.

8- Public Services-

Public Services, All India Services, Central Services, State Services, Constitutional Positions; Role and function, nature of function, Union Public Service Commission, M.P. State Public Service Commission. Training and Training Institutions of State and Centre in context of changing governance pattern.

9- Public Expenditure and Accounts-

Control over public Expenditure, Parliamentary control, Estimate Committee, Public Accounts Committee etc. Office of the Comptroller and Auditor General of India, Role of Finance Ministry in Monetary and Fiscal Policy, Composition and function of Accountant General of M.P.

10- International Organizations-

- 10.1 UN and its associate organizations.
- 10.2 IMF, The World Bank and Asian Development Bank
- 10.3 SAARC, BRICS, other Bilateral and Regional groupings
- 10.4 WTO and its impact on India.

PAPER III -GENERAL STUDIES -(III)

1. Science and Technology

1 Science

- 1.1 Matter in our surroundings, Elements, Compounds, Mixtures, Metals and Non-metals, Carbon and its compounds, Molecules, Atoms, Structure of atom. Chemical reactions, Acids, Bases and Salts.
- 1.2 Organism, Types of organisms, Tissues, Fundamental unit of life-Cell, Life processes', Metabolism, Control and Coordination, Reproduction, Heredity and Evolution.
- 1.3 Gravitation, Motions, Force, Laws of Motion, Work and Energy, Light, Sound, Electricity and Magnetism.

2. Reasoning and Data Interpretation

- 2.1 Basic numeracy and Statistics (numbers and their relations), Probability.
- 2.2 Data handling and Interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.).
- 2.3 Ratio and Proportion, Unitary method, Profit and Loss, Percentage, Discount, Simple and Compound Interest.
- 2.4 Mensuration : Area, Perimeter Volume.
- 2.5 Logical reasoning, Analytical ability and Problem solving.

3 Technology

- 3.1 Applications of Science and Technology in Social and Economic development, Indigenous technology, Transfer of technology and developing new Technologies.
- 3.2 Patents and Intellectual Property Rights. (TRIPS & TRIMS).
- 3.3 Contribution of Indians in the field of Science and Technology.

4. Emerging Technologies

- 4.1 Emerging technologies like Information and Communication Technology, Remote sensing, Space, GIS, GPS, Bio-technology & Nano-technology: their application in the field of Agriculture and Allied sectors, Health, E-Governance, Transport, Spatial Planning, Housing, Sports etc.

5/ Energy

- 5.1 Conventional and Non-Conventional sources of energy.
- 5.2 Energy Management: Issues and challenges.
- 5.3 Current status of alternative sources of energy and their future prospects.

6. Environment and Sustainable Development

- 6.1 Environmental degradation: its causes, effects and remedies.
- 6.2 Environment protection laws, Policies and regulatory framework.
- 6.3 The Environment – development debate.
- 6.4 Solid, Effluent, Sewer, Medical, Hazardous and E-waste management.
- 6.5 Climate change: Causes and Remedial measures.
- 6.6 Ecological Prints and Coping strategies.

7. Indian Economy :-

- 7.1 Development Experience of India.
- 7.2 Causes of low Industrialization in MP.
- 7.3 Economic reforms since 1991: Industrial and Financial sector reforms, stock market and Banking systems.
- 7.4 Liberalization, Privatization and Globalization.
- 7.5 Current trends and challenges in the Indian Economy.
- 7.6 Development planning in India.
- 7.7 National Income and Accounting System.
- 7.8 Infrastructural development and issues.
- 7.9 Poverty, Unemployment, Regional Imbalances and Migration.
- 7.10 Urban issues, Urban development (social and economic infrastructure) and Housing for Low Income Groups.
- 7.11 Rural issues, Rural development (Social and economic infrastructure) and Rural Credit.
- 7.12 Indicator of development, Human development & Economic development.
- 7.13 Co-operative movement in India and M.P.
- 7.14 Importance of agriculture in M.P. and Indian economy.
- 7.15 Factors of economic development.
- 7.16 Issues of Direct and Indirect Subsidy for farm sector and other social sectors.
- 7.17 Public Distribution System : Objective, Functioning, Limitation, Issues of Buffer Stock and Food Security.

PAPER IV -GENERAL STUDIES -(IV)

1- Human needs and motivation

Ethics and Values in Public Administration: Ethical elements in governance – integrity, accountability and transparency, ethical reasoning and moral dilemmas, conscience as sources of ethical guidance. code of conduct for civil servants, values in governance.

2- Philosophers/Thinkers, Social workers/Reformers :-

Mahavir, Buddha, Kautilya, Plato, Aristotle, Gurunanak, Kabir, Tulsidas, Ravindra Nath Tagore, Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Sri Aurobindo, Mohandas Karamchand Gandhi, Sarvpalli Radhakrishnan , Bhimrao Ramji Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Deen Dayal Upadhyaya, Ram Manohar Lohiya etc.

3- Attitude:

Content, Elements, Function Formation of attitude, attitudinal change, persuasive communication, Prejudice and discrimination, Stereotypes in Indian context.

4- Aptitude -

Aptitude and foundational values for Civil Service, integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker-sections.

5- Emotional intelligence-

Emotional intelligence-concepts, their utilities and application in Administration and Governance.

6- Corruption:

Types and Causes of corruption, effects of corruption, approaches to minimizing corruption– role of society, media, family, whistleblower, UN Convention on Corruption, measuring corruption; Transparency International etc.

7- Case studies - based on the contents on the syllabus.